

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 17, 1973/आश्विन 25, 1895  
No. 351] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1973/ASVINA 25, 1895

इस भाग में विन्त पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION**

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1973

**S.O. 547(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Act, 1973 (40 of 1973) the Central Government hereby appoints the 1st November, 1973 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. S. 35013(2) (73-PF.II)]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1973

**क्र० आ० 547(अ).**—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 40) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 1 नवम्बर, 1973 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं० एस० 35013(2)/73—पी एफ० II]

(1795)

**S.O. 548(E).**—In exercise of the powers conferred by section 14B of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Government hereby authorises that the powers vested in the Central Provident Fund Commissioner under the provisions of the above said section shall also be exercisable within each of the regions specified in the Schedule, by the respective Regional Provident Fund Commissioners in whose region the establishment is covered or has its Head Office.

This Notification shall come into force on the first day of November, 1973.

#### SCHEDULE

- |                                                                                                                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The State of Andhra Pradesh and Yanam area.                                                                           | 9. The State of Mysore.                                                                      |
| 2. The States of Assam, Nagaland, Manipur, Tripura and Meghalaya and Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh. | 10. The State of Orissa.                                                                     |
| 3. The State of Bihar.                                                                                                   | 11. The State of Punjab and Haryana and Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh.] |
| 4. The Union territory of Delhi.                                                                                         | 12. The State of Rajasthan.                                                                  |
| 5. The State of Gujarat.                                                                                                 | 13. The State of Tamil Nadu and Union territory of Pondicherry.                              |
| 6. The State of Kerala and Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.                                   | 14. The State of Uttar Pradesh.                                                              |
| 7. The State of Madhya Pradesh.                                                                                          | 15. The State of West Bengal and Union Territory of Andamans and Nicobar Islands.            |
| 8. The State of Maharashtra and Union territory of Goa, Daman and Diu.                                                   |                                                                                              |

[No.S.35013(2) 73-PF.II]

**क्र० आ० 548(अ).**—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उस विषय पर पूर्वतन सभी अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत करती है कि उपर्युक्त धारा के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त में निहित शक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में उन क्रमिक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा भी, प्रयुक्त की जाएंगी जिनके क्षेत्र में स्थापन माना है या उसका मुख्य कार्यालय है।

यह अधिसूचना पहली नवम्बर, 1973 को प्रवृत्त होगी।

#### अनुसूची

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य और यनम क्षेत्र।
2. असम, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र।
3. बिहार राज्य।
4. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।
5. गुजरात राज्य।
6. केरल राज्य और लकडादीव, मिनिक्काय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
7. मध्य प्रदेश राज्य।
8. महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमण तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र।
9. मसूर राज्य।
10. उड़ीसा राज्य।

11. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।
12. राजस्थान राज्य ।
13. तमिलनाडु राज्य और पाण्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र ।
14. उत्तर प्रदेश राज्य ।
15. पश्चिम बंगाल राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।

[सं० एम० 35013(2)/73-पी एफ० II]

**S.O. 549 (B).**— In exercise of the powers conferred by section 14AC of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Government hereby authorises that the powers vested in the Central Provident Fund Commissioner under the provisions of the above said section shall also be exercisable within each of the regions specified in the Schedule by the respective Regional Provident Fund Commissioners in whose region the establishment is covered or has its Head Office.

This notification shall come into force on the first day of November, 1973.

#### SCHEDULE

- |                                                                                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The State of Andhra Pradesh and Yanam area.                                                                           | 9. The State of Mysore.                                                                   |
| 2. The States of Assam, Nagaland, Manipur, Tripura and Meghalaya and Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh. | 10. The State of Orissa.                                                                  |
| 3. The State of Bihar.                                                                                                   | 11. The States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh. |
| 4. The Union territory of Delhi.                                                                                         | 12. The State of Rajasthan.                                                               |
| 5. The State of Gujarat.                                                                                                 | 13. The State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry.                       |
| 6. The State of Kerala and Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.                                   | 14. The State of Uttar Pradesh.                                                           |
| 7. The State of Madhya Pradesh.                                                                                          | 15. The State of West Bengal and Union territory of Andamans and Nicobar Islands.         |
| 8. The State of Maharashtra and Union territory of Goa, Daman and Diu.                                                   |                                                                                           |

[No. S. 35013(2)/73-PF.II]

D. S. NIM, Jt. Secy.

**का० आ० 549 (अ).**—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-क ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उस विषय पर पूर्वतन सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत है कि उपर्युक्त धारा के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त में निहित शक्तियां अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में उन क्रमिक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा भी प्रयुक्त की जाएंगी, जिनके क्षेत्र में स्थापन आता है या उसका मुख्य कार्यालय है ।

यह अधिसूचना पहली नवम्बर, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

#### अनुसूची

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य और यनम क्षेत्र ।
2. असम, नागालण्ड मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र ।

3. बिहार राज्य ।
4. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।
5. गुजरात राज्य ।
6. केरल राज्य और लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीन दीबी द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।
7. मध्य प्रदेश राज्य ।
8. महाराष्ट्र, राज्य और गोवा, दमण तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र ।
9. मेसूर राज्य ।
10. उड़ीसा राज्य ।
11. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।
12. राजस्थान राज्य ।
13. तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ।
14. उत्तर प्रदेश राज्य ।
15. पश्चिम बंगाल राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।

[सं० एस० 35013(2)/73-पी० एफ०-II]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

## OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 16th October 1973*

**S.O. 350 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, Shri V.S. Desika Chari, the Central Provident Fund Commissioner hereby authorises the Regional Provident Fund Commissioners to exercise the powers vested in the Central Provident Fund Commissioner under the provisions of the above said section within each of the regions specified in the Schedule by the respective Regional Commissioners in whose region the establishment is covered or has its Head Office.

2. This notification shall come into force on the first day of November, 1973.

#### SCHEDULE

- |                                                                                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The State of Andhra Pradesh and Yanam Area.                                                                           | 8. The State of Maharashtra and Union territory of Goa, Daman and Diu.                   |
| 2. The States of Assam, Nagaland, Manipur, Tripura and Meghalaya and Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh. | 9. The State of Mysore.                                                                  |
| 3. The State of Bihar.                                                                                                   | 10. The State of Orissa.                                                                 |
| 4. The Union territory of Delhi.                                                                                         | 11. The State of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh. |
| 5. The State of Gujarat.                                                                                                 | 12. The State of Rajasthan.                                                              |
| 6. The State of Kerala and Union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.                                   | 13. The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry.                      |
| 7. The State of Madhya Pradesh.                                                                                          | 14. The State of Uttar Pradesh.                                                          |
|                                                                                                                          | 15. The States of West Bengal and Union Territory of Andamans and Nicobar Islands.       |

[No. ES. 38(1)/73]

V. S. DESIKA CHARI,  
Central Provident Fund Commissioner.

## केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1973

क्रा० भा० 550(अ)—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी० एस० देसिका चारी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उपर्युक्त धारा के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त में निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए, उन क्रमिक क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा जिनके क्षेत्र में स्थापन आता है या उसका मुख्य कार्यालय है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को प्राधिकृत करते हैं ।

यह अधिसूचना पहली नवम्बर, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

### अनुसूची

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य और यनम क्षेत्र ।
2. असम, नागालण्ड मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र ।
3. बिहार राज्य ।
4. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।
5. गुजरात राज्य ।
6. केरल राज्य और लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।
7. मध्य प्रदेश राज्य ।
8. महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमण तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र ।
9. मैसूर राज्य ।
10. उड़ीसा राज्य ।
11. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।
12. राजस्थान राज्य ।
13. तमिलनाडु राज्य और पाण्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र ।
14. उत्तर प्रदेश राज्य ।
15. पश्चिम बंगाल राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र ।

[सं० ई०एस० 38 (1)/73]

बी० एस० देसिका चारी,  
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

